

सं. 38: बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) - पंजीकरण

(राशि मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

मद	2024-25	2025		2026
		जन.	दिसं.	जन.
	1	2	3	4
1. स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	1328	108	129	113
1.2 राशि	47800	1978	3122	4183
2. अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	51	5	6	3
2.2 राशि	13384	2020	1314	1152
3. कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1379	113	135	116
3.2 राशि	61184	3998	4436	5335
4. भारत औसत परिपक्वता (वर्षों में)	5.05	5.80	4.70	7.60
5. ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 अस्थिर दर के ऋणों के लिए वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) पर भारत औसत मार्जिन	1.48	1.53	1.38	1.42
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-11.67	0.00-11.00	0.00-10.00	0.00-11.00

उधारकर्ता श्रेणियाँ

I. कॉरपोरेट विनिर्माण	13900	242	821	337
II. कॉरपोरेट - अवसंरचना	15462	831	757	1266
ए) परिवहन	614	0	275	0
बी) ऊर्जा	6900	398	176	608
सी) पानी और सफाई व्यवस्था	28	0	0	0
डी) संचार	13	13	0	0
ई) सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना	184	0	0	0
एफ) अन्वेषण, खनन और रिफाइनरी	5356	207	300	600
जी) अन्य उप-क्षेत्र	2367	213	6	58
III. कॉरपोरेट सेवा क्षेत्र	3226	115	541	778
IV. अन्य संस्थाएं	1026	1000	354	1000
ए) एसईजेड में इकाइयां	26	0	4	0
बी) सिडबी	0	0	0	0
सी) एक्विजिशन बैंक	1000	1000	350	1000
V. बैंक	0	0	0	0
VI. वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी के अलावा)	0	0	0	0
VII. एनबीएफसी	26318	1792	1944	1884
ए) एनबीएफसी - आईएफसी / एएफसी	12389	1370	879	596
बी) एनबीएफसी - एमएफआई	459	56	76	0
सी) एनबीएफसी - अन्य	13470	366	989	1288
VIII. गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)	0	0	0	0
IX. सूक्ष्म वित्त संस्था (एमएफआई)	0	0	0	0
X. अन्य	1252	18	19	70

@ 01 जुलाई, 2023 से बेंचमार्क दर को बदलकर वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) कर दिया गया है।

टिप्पणी: ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड (एफसीसीबी) के लिए आवेदनों के आधार पर जिन्हें निर्धारित अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या आबंटित की गई है।